

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली

हौज खास, नई दिल्ली -110016

(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

Hauz Khas, New Delhi-110016

(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/RP03811G/

Advertisement No.: IITD/IRD/013/2022

Dated:10/01/2022

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा.

Title of the Project	Study of Airwake and its Control over Flight Deck of Aircraft Carrier for Safe Aircraft landing Operations (RP03811G)	
Funding Agency	Naval Research Board, Directorate of Naval R&D, Ministry of Defence	
Name of the Project Investigator	Prof. Sawan Suman Sinha [email ID:sssinha.applications@gmail.com]	
Deptt./Centre	Department of Applied Mechanics	
Duration of the Project	Upto:18/11/2022	
Post (s)	Consolidated fellowship / Pay-slab	Qualifications
Jr. Research Fellow (1)	Rs.31,000/-pm plus HRA @ 24%	(1) 1 st class B.Tech/M.Tech. Degree or equivalent, AND (2) NET/GATE* qualification, AND (3) Proof (marksheet/grade sheet) of having completed (passed) at least one-semester long course on Computational Fluid Dynamics (CFD) during M.Tech./ B. Tech. programme. Working knowledge of the ANSYS and OpenFOAM packages is desirable. A candidate who has completed her/his B.Tech. programme from a CFTI and does not have a valid NET/GATE* score may also apply, provided her/his final B.Tech. CGPA is 8.0 or above. *The requirement of NET/GATE examination for the selection to the post of JRF/SRF may be relaxed for the candidates who have graduated from Centrally Funded Technical Institutes (CFTIs) with a CGPA of more than 8.000 (80% aggregate marks).

The candidates who are interested to apply for the above post should download Form No. IRD/REC-4 from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. by e-mail with advertisement No. on the subject line to Prof. Sawan Suman Sinha at email id: sssinha.applications@gmail.com

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the interview details. Only short-listed candidates will be informed for online interview. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact Prof. Sawan Suman Sinha at email id: sssinha.applications@gmail.com

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है. The last date for submitting the completed applications by e-mail is 24/01/2022 by 5.00 p.m.

सहायक कुलसचिव, आईआईटी

वितरण

- Head of the Deptt./Centres/Units :
- Webmaster, IRD
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. Sawan Suman Sinha, PI, Department of Applied Mechanics
- Copy to Chairperson, DRC/CRC
- Dr. Harshita Bhatnagar, RD Coordinator, (R&D) Wing

It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
To put advertisement at IITD website.